

August 11, 2023

DCS-CRD BSE Limited First Floor, New Trade Wing Rotunda Building, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai 400 023 Stock Code: 533229	Listing Compliance National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, 5th Floor Plot No. C/1, 'G' Block Bandra- Kurla Complex Bandra East, Mumbai 400 051 Stock Code: BAJAJCON
--	--

Dear Sir/Madam,


**Sub: News Paper Publication of Extracts of Consolidated audited financial results
for the quarter ended June 30, 2023**

Pursuant to the Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copies each of Economic Times (English Daily) and Jai Rajasthan (Hindi Daily) both dated August 11, 2023, for publication of extracts of consolidated unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2023.

The same may please be taken on record and suitably disseminated to all concerned.

Thanking you,

Yours Sincerely,
For Bajaj Consumer Care Limited



Vivek Mishra
Head-Legal & Company Secretary
Membership No.: A21901

Encl: as above

Bajaj Consumer Care Ltd

(Formerly Bajaj Corp Ltd)

117, 11th Floor, Bajaj Bhavan, Jamnalal Bajaj Marg, 226 Nariman Point, Mumbai - 400021

Tel.: +91 22 22049056 / 58 / 8633 | CIN: L01110RJ2006PLC047173 | Web: www.bajajconsumercare.com

Registered Office: Old Station Road, Sevashram Chouraha, Udaipur- 313 001, Rajasthan

Tel.: +91 0294-2561631, 2561632

Tata AutoComp Posts \$2-Billion Revenue in FY23, its Highest Ever

Strong results come after Tata co has transformed itself from commodity business model to tech-focused firm

Kalai.Vijayraghavan
etimesgroup.com



ESG compliance," Goel said.

"We have made significant investments over the last two years in innovation and technology. Our organisational transformation is not only restricted to products and technology, but the way we operate," he said.

Tata AutoComp formed joint ventures with Golon Hi-Tech to bring in battery packs and BMS and with Prestolt Electric for electric motors and drivetrains. It also signed a memorandum of understanding with Telsa to market EV chargers in India.

The company strengthened its existing portfolio to launch products and solutions to meet emerging requirements. "For example, we introduced light-weight plastics and compressors to drive the HVAC and developed cooling plates and modules for all powertrain products in the EV. Our interiors and plastics division developed cell and module carriers and our composite division developed lightweight RFI-compliant battery pack cover," he said. "This year we have invested in creating our own portfolio of vehicle and power electronics," he said.

The Tata Group company makes automotive components and systems like engine cooling solutions, automotive batteries, EV chargers and electronic solutions for passenger and commercial vehicles as well as suspensions for heavy commercial vehicles.

"Our transformation journey began in 2018 after our group chairman N Chandrasekaran suggested that we look at financial fitness and focus on building technology. That turned the thinking of the company from a commodity-driven to a technology-driven company. We developed our strategy keeping in mind the emerging mega trends around CASE connected vehicles, autonomous driving, electrification, shared mobility as well as the ESG environmental, social and governance guidelines impacting the auto industry. Among these, we selected to work on electrification. Besides being the fastest emerging trend, it also met the

market leadership achieved recently by its anchor customer, Tata Motors, in electric vehicles (EVs) boosted its fortunes as a significant component supplier offering end-to-end solutions for EVs, chairman Arvind Goel said. "This year we have invested in creating our own portfolio of vehicle and power electronics," he said.

The market leadership achieved recently by its anchor customer, Tata Motors, in electric vehicles (EVs) boosted its fortunes as a significant component supplier offering end-to-end solutions for EVs, chairman Arvind Goel said.

The company has localised components for almost 50% of EV manufacturing except cells for the battery pack and magnets for the motors, Goel told ET. "This year we have invested in creating our own portfolio of vehicle and power electronics," he said.

The Tata Group company makes automotive components and systems like engine cooling solutions, automotive batteries, EV chargers and electronic solutions for passenger and commercial vehicles as well as suspensions for heavy commercial vehicles.

"Our transformation journey began in 2018 after our group chairman N Chandrasekaran suggested that we look at financial fitness and focus on building technology. That turned the thinking of the company from a commodity-driven to a technology-driven company. We developed our strategy keeping in mind the emerging mega trends around CASE connected vehicles, autonomous driving, electrification, shared mobility as well as the ESG environmental, social and governance guidelines impacting the auto industry. Among these, we selected to work on electrification. Besides being the fastest emerging trend, it also met the

Amazon India Enables Exports worth ₹800 cr, Digitises 62 lakh MSMEs

In the last one year, the company said it has helped create about 5.4 lakh direct and indirect jobs across industries

content creation, and skill development.

Started in 2021, Amazon Sambhar Venture Fund is a ₹250-million fund focused on startups in technology, agriculture, and health, among others.

The fund has invested in startups such as FreshoHome, Hopewatch, Cashify, Smulace and MyGlamour in the last 24 months, Amazon said in a statement. PTI

PHYSICAL POSSESSION NOTICE

ICICI Home Finance Registered Office: (ICICI) Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051

Corporate Office: ICICI HFC Tower, JB Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai - 400059

Branch Office: 1st floor, G. K. Tower, Plot No.14, Santal Colony, Ambivikar Circle, Bikaner - 334001

Branch Office: Plot No.1, 1st floor, Sahyog Bhawan, Aeroplane Circle, Kota - 324007

Whereas The undersigned being the Authorized Officer of ICICI Home Finance Company Limited under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued demand notices upon the borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 30 days from the date of receipt of the said notice.

As the borrower failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of ICICI Home Finance Company Limited.

Sr. No. Name of the Borrower/ Co-borrower/ Loan Account Number Description of property/ Date of Possession Date of Demand Notice/ Amount in Demand Notice (Rs.) Name of Branch

1. Sanjay Khan (Borrower), Chandani (Co-borrower), NHBK00000902034. Plot No A-31, 32, 33 Shiv Valley Gangashahar Road Pearl Heights Building 1 Bikaner Rajasthan 334401. Date of Possession- 18-Aug-23 23-05-2022 Bikaner-B Rs. 11,45,956/-

2. Mohan Lal Soni (Borrower), Santosh Devi Soni (Co-borrower), NHBK00001293281. Patta No 1891 Ward No 27 Near Karmi Mata Mandir Jorawarpura Nokha-334803. Bounded By North: Remaining Part of Patta 1891 South: Ashram Chhipa East: Remaining Part of Patta 1891 West: Bhawan Chhipa And Rasta/ Date of Possession- 08-Aug-23 24-05-2022 Bikaner-B Rs. 6,59,218/-

3. Mohan Lal Soni (Borrower), Santosh Devi Soni (Co-borrower), NHBK00001293254. Patta No 1891 Ward No 29 Vizu Zone 26 Near Karmi Mata Mandir Jorawarpura Nokha-334800. Bounded By North: Remaining Part of Patta 1891 South: Ashram Chhipa East: Remaining Part of Patta 1891 West: Bhawan Chhipa And Rasta/ Date of Possession- 08-Aug-23 24-05-2022 Bikaner-B Rs. 26,81,771/-

4. Mohan Lal Soni (Borrower), Santosh Devi Soni (Co-borrower), NHBK00001293255. Patta No 1891 Ward No 26 Near Karmi Mata Mandir Jorawarpura Bikaner-334001. Bounded By: North: Remaining Part of Patta 1891 South: Plot No 18 And Vacant Land, East: Other Plot, West: Road/ Date of Possession- 09-Aug-23 24-05-2022 Bikaner-B Rs. 5,59,200/-

5. Rajakaranta (Borrower), LHKOT00001423257. Krishna Nagar Rangbari Kola Na Kota Rajasthani 324005. Bounded By: North: Plot No 17, South: Plot No 18 And Vacant Land, East: Other Plot, West: Road/ Date of Possession- 09-Aug-23 11-07-2022 Kota-B Rs. 31,05,375/-

6. Rajakaranta (Borrower), LHKOT00001423260. Krishna Nagar Rangbari Kola Na Kota Rajasthani 324005. Bounded By: North: Plot No 17, South: Plot No 18 And Vacant Land, East: Other Plot, West: Road/ Date of Possession- 09-Aug-23 11-07-2022 Kota-B Rs. 1,25,705/-

7. Rajakaranta (Borrower), LHKOT00001438632. Krishna Nagar Rangbari Kola Na Kota Rajasthani 324005. Bounded By: North: Plot No 17, South: Plot No 18 And Vacant Land, East: Other Plot, West: Road/ Date of Possession- 09-Aug-23 11-07-2022 Kota-B Rs. 5,10,003/-

The above-mentioned borrower(s)/ guarantor(s) are hereby given a 30 day notice to repay the amount, else the mortgaged properties will be sold on the expiry of 30 days from the date of publication of the notice, as per the provisions under the Rules 6 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

Date: August 11, 2023 Place: Bikaner, Nokha, Kota

Authorized Officer ICICI Home Finance Company Limited

Parliamentary Panel Calls for 'Reasonable' Cap on Air Fares

Committee asks civil aviation ministry to ensure 'price lock' option for travellers and display of seat-wise fares

Jatin.Takkar@timesgroup.com

New Delhi: The civil aviation ministry should introduce "reasonable upper fare caps" on all airlines to promote accessibility of air transport to the common man, a parliamentary panel recommended in its report tabled in Parliament on Thursday.

The ministry should also devise a mechanism to encourage all airlines to implement the price lock" option wherein customers can reserve their booking with or without paying a nominal fee, the Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture said in its report tabled on Thursday. This

would help customers make better travel decisions by allowing them to book tickets by reserving seats without paying for the actual price of the ticket upfront.

To promote "accessibility of air transport to the common man", the

panel, led by YSRCP MP V Vilasai Reddy, in its report said, "the Union Civil Aviation Ministry should introduce reasonable upper fare caps on all airlines, taking into account all relevant factors including the cost of operation, characteristics of service, reasonable profit and the generally prevailing tariff."

It is essential to maintain a pricing

discipline to protect the interests of both airlines and the public, the 31-member committee has stated.

The committee also said that like Indian Railways, airlines should display seat-wise fares which will provide transparency to customers making the airfare system being followed more credible and trustworthy.

Indian Airlines may Cut Net Loss to ₹7,000cr in FY24: ICRA

Mumbai: Indian airlines are expected to see a sharp drop in net losses to ₹5,000-7,000 crore this fiscal as they continue to witness healthy passenger traffic growth and improvement in their revenue, rating agency ICRA said on Thursday. The net loss would be much lower compared to the ₹10,000-13,000 crore the industry is estimated to have reported for 2022-23 due to elevated aviation turbine fuel (ATF) prices, coupled with de-

preciation of the rupee against the dollar, it said.

Airlines have improved the cost of available seat kilometre (RASK-CASK) spread through better pricing discipline, it said.

According to the rating agency, the domestic aviation industry continues to face challenges despite witnessing a healthy recovery in air passenger traffic because of sequential increase in

ATF prices and depreciation of the value of rupee against dollar.

It said domestic air passenger traffic rose 25% to around 1.22 crore in July as compared to 97 lakh in the same month last year.

The outlook for the aviation sector is stable on the back of fast-paced recovery in the previous fiscal and expectations of the trend continuing in 2023-24, ICRA said.

"Last fiscal's losses were much lower than the

net loss of ₹23,600 crore in 2021-22 and ICRA's estimate of net loss of ₹15,000-17,000 crore for 2022-23, driven by improvement of airlines to shore up yields without impacting demand," it said.

"The net loss is expected to reduce further to ₹5,000-7,000 crore in 2023-24 as airlines continue to witness healthy passenger traffic growth and improve their RASK-CASK spread through better pricing discipline," ICRA said. PTI



EXTRACTS OF UN-AUDITED FINANCIAL STANDALONE AND CONSOLIDATED RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON JUNE 30, 2023

Particulars	STANDALONE		CONSOLIDATED	
	QUARTER ENDED	YEAR ENDED	QUARTER ENDED	YEAR ENDED
Total Income from Operation (net)	10,907.00	11,921.69	8,810.90	26,171.26
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	478.12	842.29	523.00	3,043.76
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,597.28	859.07	523.00	1,981.00
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) from continuing operations	1,320.74	336.55	344.00	1,555.64
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) from discontinued operations	-	-	-	555.76
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) from discontinuing operations	-	-	(119.72)	32.22
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	1,307.80	840.82	350.20	3,558.52
Paid up Equity Share Capital	773.62	773.62	479.25	841.72
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance sheet of previous year)	-	-	773.62	309.20
Earnings per share (of ₹ 1/- each) (for continued operations)	1.68	1.59	0.72	2.37
Basic :	1.42	1.04	0.58	1.16
Diluted :	-	-	0.50	0.98
Earnings per share (of ₹ 1/- each) (for Discontinued operations)	-	-	(0.15)	0.06
Basic :	-	-	(0.15)	0.10
Diluted :	-	-	(0.15)	0.34

For Patel Engineering Ltd.
Kartik Shrivastava
Whole Time Director & CEO
Mobile: 0797373700

bajaj CONSUMER CARE

Bajaj Consumer Care Limited

CIN: L01110RJ2006PLC047173

Regd. Office : Old Station Road, SevaShram Chauraha, Udaipur 313 001, Rajasthan

Phone: +91 0294-2561631-32 ● Website: www.bajajconsumercare.com

Email: complianceofficer@bajajconsumercare.com

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2023

Particulars	Quarter ended		Year ended	
June 30, 2023	March 31, 2023	June 30, 2022	March 31, 2023	

<tbl_r cells="5" ix="5" maxcspan="

